

SHIVKAMAL IMPEX LIMITED

Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016
Tel: 011-26192964, e-mail: siv_kamal@yahoo.com,info@shivkamalimpex.com
CIN: L52110DL1985PLC019893, Website-www.shivkamalimpex.com

Ref. No.: SKIL/2022-23/331

To, Date: May 16, 2022

Listing Operations BSE Ltd.

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai- 400001

Scrip Code: 539683

Subject: Newspaper publication of audited Financial Results for the Quarter and Year

ended March 31, 2022.

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copy of the Newspaper Advertisement of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2022 published in Financial Express (English edition) and Jansatta (Hindi edition) on May 15, 2022.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Shivkamal Impex Limited

Vineeta Gautam Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

time available to redeem the secured assets.

(a) Name of Branch (b) Name of Account

(c) Name of Borrowers/Guarantor/Morgorer & Address

(b) Smt. Vinita (c) Smt. Vinita W/o Sh Vikas Sharma (Borrower + Mortgager) Add1; A-110.

IInd Floor, Som Dutt City, Garh Road, Meerut, UP, PIN-250004 Add2: - C-151, Shastri Nagar,

Fareed S/o Mohd Yunus (Guarantor) Add: - 254, Sarai Lal Das, Meerut, UP, PIN-250002 | South: Unit/Flat No. A-131

8-Apr-22

Rs. 337696/-

Rs. Three Lac Thirty-Seven

Thousand Six Hundred Ninety-Six

Only As on 6-Apr-22

8-Apr-22

Rs. 1227806/-

Rs. Twelve Lac Twenty-Seven

Thousand Eight Hundred Six Only

As on 6-Apr-22

8-Apr-22

Rs. 1516071/-

Rs. Fifteen Lac Sixteen Thousand

Seventy-One Only As on 6-Apr-22

8-Apr-22

Rs. 440921/

Rs. Four Lac Forty Thousand Nine

Hundred Twenty-One Only As on

6-Apr-22

8-Apr-22

Rs. 3381292/-

Rs. Thirty-Three Lac Eighty-One

Thousand Two Hundred Ninety-

Two Only As on 6-Apr-22

8-Apr-22

Rs. 230617/-

Rs. Two Lac Thirty Thousand Six

Hundred Seventeen Only As on 6

Apr-22

8-Apr-22

Rs. 3388581/

Rs. Thirty-Three Lac Eighty-Eight

Thousand Five Hundred Eighty-

One Only As on 6-Apr-22

8-Apr-22

Rs. 4736360/-

Rs. Forty-Seven Lac Thirty-Six

Thousand Three Hundred Sixty

Only As on 6-Apr-22

8-Apr-22

Rs. 2474932/-

Rs. Twenty-Four Lac Seventy-

Four Thousand Nine Hundred

Thirty-Two Only As on 6-Apr-22

8-Apr-22

Rs. 1730794/-

Rs. Seventeen Lac Thirty

housand Seven Hundred Ninety-

Four Only As on 6-Apr-22

8-Apr-22

Rs. 2080006/-

Rs. Twenty Lac Eighty Thousand

Six Only As on 6-Apr-22

8-Apr-22

Rs. 753416/-

Rs. Seven Lac Fifty-Three

Thousand Four Hundred Sixteen

Only As on 6-Apr-22

8-Apr-22

Rs. 1388850/-

Rs. Thirteen Lac Eighty-Eight

Thousand Eight Hundred Fifty

Only As on 6-Apr-22

8-Apr-22

Rs. 530830/

Rs. Five Lac Thirty Thousand

Eight Hundred Thirty Only As on

6-Apr-22

8-Apr-22

Rs. 1150632/-

Rs. Eleven Lac Fifty Thousand Six

Hundred Thirty-Two Only As on

6-Apr-22

13-Apr-22

Rs. 3072281/-

Rs. Thirty Lac Seventy-Two

Thousand Two Hundred Eighty-

One only As on 12-Apr-22

13-Apr-22

Rs. 1817268/-

Rs. Eighteen Lac Seventeen

Thousand Two Hundred Sixty-

Eight only As on 12-Apr-22

13-Apr-22

Rs. 256160/

Rs. Two Lac Fifty-Six Thousand

One Hundred Sixty only As on 12-

Apr-22

13-Apr-22

Rs. Twenty-Nine Lac Thirty-One

Thousand One Hundred Four only

As on 13-Apr-22

13-Apr-22

Rs. 1605494/-

Rs. Sixteen Lac Five Thousand

Four Hundred Ninety-Four only

As on 12-Apr-22

13-Apr-22

Rs. 811029.8/-

Rs. Eight Lac Eleven Thousand

Twenty-Nine only As on 12-Apr-

13-Apr-22

Rs. 2613330/-

Rs. Twenty-Six Lac Thirteen

Thousand Three Hundred Thirty

only As on 12-Apr-22

13-Apr-22

Rs. 817242/-

Rs. Eight Lac Seventeen

Thousand Two Hundred Forty-

Two only As on 12-Apr-22

13-Apr-22

Rs. 2752266/

Rs. Twenty-Seven Lac Fifty-Two

Thousand Two Hundred Sixty-Six

only As on 12-Apr-22

13-Apr-22

Rs. 1287842/-

Rs. Twelve Lac Eighty-Seven

Thousand Eight Hundred Forty-

Two only As on 12-Apr-22

22-Apr-22

Rs. 3830811/-

Rs. Thirty-Eight Lac Thirty

Thousand Eight Hundred Eleven

Only As on 12-Apr-22

31-Mar-22

Rs. 2815096/-

Rs. Twenty-Eight Lac Fifteen

Thousand Ninety-Six only As on

31-Mar-22

Rs. 2931104/-

(a) Branch: Jagriti Vihar (400700), Meerut & Collectorate (587000), Meerut, Meerut

Name of the Borrower/ Co-Borrower Date and Amount of Demand

Outstanding as on

date of Demand notice

2107402.29/-

+ interest due

w.e.f. 01.01.2022

+ legal & Other

expenses if any

Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar

Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001

(CIN:L36911RJ1996PLC011381)

Property Situated At Freehold - Municipal Limit

Metro And Urban 12 Panchsheel Colony

Panchsheel Colony Gautam Buddha Nagar Gzb

Uttar Pradesh Admeasuring 139 Sqyds

Property Situated At Freehold - Within

Municipal Limit E-86/1 541 Gali No-4 Subhash

Vihar North East Delhi North East Delhi

Admeasuring 40 Sqyds

Property Situated At Freehold - Municipal

Limit Metro And Urban 471 Oblic 1 558 Kaila

Ghaziabad Uttar Pradesh Admeasuring 103

Property Situated At Freehold - Within

Municipal Limit Khasra No 483 Pavi Sadakpur

Property Situated At Freehold - Municipal

Limit Metro And Urban 43 299 Prashant

Admeasuring 100 Square Yard

Property Situated At House No 113, Khet No.

133, Jaganpur Afzalpur, Pargana Dankaur, Dist

& Te.- Gautam Budh Nagar Up, Bounded as

East - Other'S Property , West - Road, North -

(भारत सरकार का उपक्रम)

सम्मान आपके विश्वास का

UCO BANK

(A Govt. of India Undertaking)

Branch: 55A Navyug Market,

Ghaziabad-201001

Email: N562@indianbank.co.in

Honours Your Trust

Branch: HZ/3 Rakesh Warg, Nenru Nagar, Gnaziabad Uttar Pradesh zu iuu i [Keter Kule 8(1)] PUSSESSIUN NUTICE (For Immovable Property) Whereas, the undersigned being the authorized officer of UCO BANK, H2/3 Rakesh Marg, Nehru Nagar, Ghaziabad Uttar Pradesh

201001 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 28.10.2021 calling upon borrowers Mr. Vipin Kumar Mathur S/o Mr. Gopichand Mathur (Borrower) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 681065.44 (Rupees Six Lacs Eighty One Thousand Sixty Five and Paise Forty Four Only) as on Date 31.05.2021 Within 60 days From the date of receipt of the said notice With Future interest and other incidental charges w.e.f 01.06.2021. The borrower/guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her Under Section. 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 11 day of May 2022. The borrower/quarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the UCO BANK, H2/3 Rakesh Marg, Nehru Nagar, Ghaziabad 201001 for an amount of

Rs. 681065.44 (Rupees Six Lacs Eighty one Thousand Sixty Five and Paise Forty Four Only) as on Date 31.05.2021 With Future interest and other incidental charges w.e.f 01.06.2021.

Indian Bank

GASAHAJJA

All that Part and Parcel of Equitable Mortgage of Flat No. B - 538- C, Third Floor, Block - B, Balmiki Kunj, Patel Nagar — 2, Ghaziabad. Date: 11.05.2022, Place: GHAZIABAD **AUTHORISED OFFICER, UCO BANK**

Description of Immovable Property

A ROHTWINTE

May of the year 2022

(A/c No.) L9001060821818871

(A/c No.) L9001060716711715

(A/c No.) L9001060118266637

(A/c No.) L9001061122205152

Naseem Alisher (Co-Borrower)

(A/c No.) L9001060116561380

Nagesh Kumar Tiwari (Borrower),

Dilip Kumar Tiwari (Co-Borrower)

(A/c No.) L9001061121674807

(A/c No.) L9001060117959957

(A/c No.) L9001060116429750

(A/c No.) L9001060123454411

Kavita Chauhan (Borrower), Anil

Chauhan (Co-Borrower), Nitish

(A/c No.) L9001060826099013

(A/c No.) L9001060118170691

(A/c No.) L9001061124363562

Nagesh Kumar Tiwari (Borrower),

Dilip Kumar Tiwari (Co-Borrower)

(A/c No.) L9001060118175603

(A/c No.) L9001060100993106

Guarantor: Bibhu Prasad Panda

(A/c No.) L9001060821178072

(A/c No.) L9001060116524621

(A/c No.) L9001060719768623

(A/c No.) L9001061121884672

(A/c No.) L9001060120384958

(A/c No.) L9001060818353920

(A/c No.) L9001060821072897

(A/c No.) L9001060113008691

(A/c No.) L9001060101003292

(A/c No.) L9001060115730745

Mortgagor), Smt. Doli Devi (Co-

(A/c No.) L9001060115419646

(A/c No.) L9001060718526927

(A/c No.) L9001060118649881

DHARAMWATI (Co-Borrower &

Mortgagor), CHIDDA SINGH (Co-

Rahis (Borrower), Smt. Aneesa . (Co-

Mohd Salim (Borrower), Muna Begum

Smt. Om Wati (Legal Heir of Late Shri

Narendra Kumar - Borrower), SMT.

heirs of Late Shri Narendra Kumar -

Shashi Bhushan Rai (Borrower &

Bhuna Masala (Borrower), Vishnu

Sidhana (Co-Borrower), Nirupama

Shokat Ali (Borrower), Jameel . (Co-

Sabra Begum (Co-Borrower), Sajjo, (Co-

Pravin Kumar (Borrower), Smt. Rashmi

Sharma (Co-Borrower & Mortgagor)

Borrower), Kalwa , (Co-Borrower),

Sidhana (Co-Borrower)

Sidhana (Co-Borrower)

Borrower)

Borrower)

(Co-Borrower)

Borrower)

Borrower

Bhuna Masala (Borrower), Vishnu

Sidhana (Co-Borrower), Nirupama

Big Star Club Enterprises (Borrower).

Najra Najra (Co-Borrower), Mohd Salim

Sidhana (Co-Borrower)

Devi (Co-Borrower)

Devi (Co-Borrower)

(Co-portower)

Durga Madhab Panda (Borrower),

Sunita Kumari Brahma (Co-Borrower)

Nav Durga International (Borrower),

Mahesh Chand Tiwari (Co-Borrower)

Shimla Chand Tiwari (Co-Borrower)

Mahesh Chand And Sons (Co-Borrower)

Manisha Chand Tiwari (Co-Borrower),

Vishnu Sidhana (Borrower), Nirupama

Amod Kumar Tiwari (Borrower), Anita

Amod Kumar Tiwari (Borrower), Anita

Devs Rasoi And Caters (Borrower),

Nikhil Vig (Co-Borrower), Minakashi Vig

Mahesh Chand Tiwari (Co-Borrower),

Kavita Chauhan (Borrower), Nitish

Chauhan (Co-Borrower), Anil Chauhan

Vanshika Collection (Borrower), Kapil

Kumar (Co-Borrower) , Sheela Devi Devi

Chauhan (Co-Borrower)

(Co-Borrower)

(Co-Borrower)

(Co-Borrower)

Khanna (Co-Borrower)

R Khanna Enterprises (Borrower),

Saurabh Khanna (Co-Borrower), Pooja

Vijay Kumar Verma (Borrower), Urmila

Devi (Co-Borrower), Anshu Verma (Co-

Devs Rasoi And Caters (Borrower),

Nikhil Vig (Co-Borrower) , Minakashi Vig

Mahesh Chand Tiwari (Co-Borrower),

hammad Rafig . (Borrower)

Rajesh Kumar (Borrower), Suman Yadav

Tanwar (Co-Borrower)

Dhruv Tanwar (Borrower), Sweta

(Co-Borrower)

(Co-Borrower)

(Co-Borrower)

Borrower)

Rajesh Kumar (Borrower), Suman Yadav

Date: 14.05.2022

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED (A SCHEDULED COMMERCIAL BANK)

Whereas, been the Authorized Officer/s of the Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and

in exercise of powers conferred under Section 13 read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice/s on the dates mentioned against each account

calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notice(s). The

borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property

described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002, on the

borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of Punjab

National Bank for the amounts and interest thereon. The borrower's /quarantor's /mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of

Place: Meerut

Description of

650/259 Nangal Raya South West Delhi

Admeasuring 65 Sqyds

Property Situated At Freehold - Municipal Limit

Metro And Urban 108 3 14 Vikash Nagar West

Uttam Nagar Delhi Admeasuring 40 Sqyds

Property Situated At Freehold - Municipal Limit

Metro And Urban F 86 1 Gali No 4 Subhash

Vihar North Ghonda North East Delhi

Admeasuring 50 Sqyds

Property Situated At Freehold - Within

Municipal Limit 2199(Old No.973) Pvt Shop No.

304, 306, 310, Tilak Bazar Central Gali Hinga

Beg Delhi Admeasuring 51.73 Sayds

Property Situated At Freehold - Municipal Limit

Metro And Urban 03 Gali No 2 Ram Nagar

East Khureji Delhi Admeasuring 111 Sqyds

Property Situated At Freehold - Within

Municipal Limit Plot No 21 Khasra No 263 264

268 289 290 291 294 Vidya Vihar Villege

Nasirpur Ghaziabad Uttar Pradesh

Admeasuring 138 Sqyds

Property Situated At Freehold - Within

Municipal Limit Plot No. 148 Kh No. 45,46

Vaidjee Farm Colony Gautam Buddha Nagar

Uttar Pradesh Admeasuring 155 Sqyds

Property Situated At Freehold - Municipal Limit

Metro And Urban Na 165Min Noida Sector 53

Gautam Buddha Nagar Dadri Uttar Pradesh

Admeasuring 234.72 Sqyds

Property Situated At 121 Near Sai Medicos

Water Tank Gizhore Sector 53 Noida Gautam

Buddha Nagar Uttar Pradesh 201301

Admeasuring 1121.25 Sqyds

Property Situated At Freehold - Municipal Limit

Semi Urban And Rural 958 249 958 249 Gokal

Pur North East Gokalpur Delhi Admeasuring

50 Sayds

Property Situated At Khari Baoli Habash Khan-

Delhi 110006 Admeasuring 51.73 Sqyds

Property Situated At Freehold - Municipal Limit

Metro And Urban 03 Gali No 2 Near Mcd

School Ram Nagar East Khureji Khas Delhi

Admeasuring 111 Sqyds

Property Situated At Book No. 01 C-2, 2Nd

Floor Khasra No 298/1 Lal Dora Of Village

Ghitorni Road No Zero Sultanpur Delhi 110030

Admeasuring 75 Square Yard

Property Situated At Freehold - Municipal Limit

Metro And Urban Pvt Shop No 306 307 304

310 Third Floor Khari Baoli Habash Khan

Central Delhi Admeasuring 51.73 Sqyds

Property Situated At 1St Floor(Without Roof

Right) Part Of 2Nd Floor With Roof Right,

House No 056, Serial No 7, Ansal Chiranjeevi

Vihar, Akrati Homes, Village Mehroli,

Ghaziabad Up. Admeasuring 135 Sq Mtr.

Property Situated At Freehold - Municipal Limit

Metro And Urban 333 Loni Ghaziabad Uttar

Pradesh Admeasuring 100 Sqyds

Property Situated At Freehold - Municipal Limit

Semi Urban And Rural 333 Loni Ghaziabad

Uttar Pradesh Admeasuring 100 Sqyds

Property Situated At Freehold - Municipal

Limit Metro And Urban Prop No 16 Oblic 1141

E Ground Floor Bapa Nagar Gali No 2 Central

Delhi Admeasuring 16.5 Sqyds

Property Situated At 56 - - First And Second

Flooraakriti Homes Ansal Chiranjiv Viharsector

07 Ghaziabad Uttar Pradesh 201002

Admeasuring 202.5 Square Metre

Property Situated At 56 First And Second

Flooraakriti Homes Ansal Chiranjiv Viharsector

07 Ghaziabad Uttar Pradesh 201002

Admeasuring 202.5 Square Metre

Property Situated At H.No 70 Gali No 5 Gagan

Vihar Brahampur Loni Ghazi-Ghaziabad, Uttar

Pradesh Admeasuring 5900 SQFT

Property Situated At Plot No. 83, Khasra No.

3051, Mansarover Park Phase 2, Vill & Tehsil

Dasna, Dist. Ghaziabad, Uttar Pradesh

Admeasuring 90 Sq. Yd.

Property Situated At Resi Plot No. Rz/C/37/1,

At Khasra No.15/2, Vill. Palam Colony, Mahavir

Enclave, New Delhi, Ademasuring 50 Sq. Yd.

Property Situated At Plot No 18 Manisha Park

Pavi Sadak Pur Kh No 706 Ghaziabad

Ghaziabad Uttar Pradesh 201102 Admeasuring

325 Square Yard

Property Situated At Freehold - Municipal

Limit Metro And Urban 26 D 2326 2 Shankar

Garden Loni Ghaziabad Uttar Pradesh

Admeasuring 200 Sqyds

PROPERTY SITUATED AT PROPERTY NO. -47,

KNOWN AS -47-B, OUT OF KHASRA NO. 488

OLD TEZAB MILL, ABADI KNOWN AS BHOLA

CHANDRAWALI ALIAS SHAHDRA, DELHI-

110032, BOUNDED AS EAST - OTHER

PROPERTY NO. 47-B, WEST - ROAD, NORTH -

OTHER PROPERTY 48, SOUTH - OTHER

PROPERTY Admeasuring 774 Sq. FT.

NATH NAGAR , , IN THE AREA OF VILLAGE

Demand Notice Under Section 13(2) of Securitisation Act of 2002

As the loan account became NPA therefore the Authorized officer under section 13(2) of "The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002" had issued 60 days demand notice to the borrowers/co-borrowers/ Mortgagers/Guarantors (collectively referred as "Borrowers") as given in the table. According to the notice if the borrowers do not deposit the entire amount within 60 days, the amount will be recovered from auction of the mortgage properties/secured assets as given below. Therefore you the borrowers are informed to deposit the entire loan amount along with future interest and expenses within 60 days from the provisions of 13(4) and 14 of the said Act, the Authorized officer is free to take possession for sale of the

Description of property Mortgage

Primary Security:- Residential Flat No. A-110 on IInd Floor,

situated at Som Dutt City Colony, Village- Sarai Kazi, Garh

Road, Meerut, UP. Super Buildup Area- 102.19 Sq Mtr In the

Borrowers to note that after receipt of this notice, in terms of Section 13(13) of the Act, 2002, you are prohibited and restrained from transferring any of the secured assets by way of sale, lease or otherwise, without prior written consent of the secured creditor. Borrowers attention are attracted towards Section 13(8) r/w Rule 3(5) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Act that the borrowers shall be entitled to redeem their secured asset upon the payment of the complete outstanding dues as mentioned below before the publication of auction notice, which thereafter shall cease to exist.

/Mortgagor/Guarantor/ Loan A/c No.	Notice Under Sec. 13(2)	Mortgaged Property	/Mortgagor/Guarantor/ Loan A/c No.	Notice Under Sec. 13(2)	Mortgaged Property
(A/c No.) L9001060114528766 Mohammad Rafiq . (Borrower), Naseem Alisher (Co-Borrower)	8-Apr-22 Rs. 1807678/- Rs. Eighteen Lac Seven Thousand Six Hundred Seventy-Eight Only As on 6-Apr-22	Municipal Limit Khasra No 548 Khasra No 541	Borrower)	8-Apr-22 Rs. 1005398/- Rs. Ten Lac Five Thousand Three Hundred Ninety-Eight Only As on 6-Apr-22	Property Situated At Freehold - Within Municipal Limit 12 98 Panchsheel Colony Gautam Buddha Nagar Gautam Budh Nagar Uttar Pradesh Admeasuring 139 Sqyds

(A/c No.) L9001061121663172 8-Apr-22 Property Situated At Freehold - Municipal Limit Shiv Kumar (Borrower), Raj Pali (Co-Rs. 161222/-Metro And Urban 108 Uttam Nagar North East Borrower) Rs. One Lac Sixty-One Thousand Delhi Admeasuring 50 Sqyds Two Hundred Twenty-Two Only As on 6-Apr-22 (A/c No.) L9001060817348351 8-Apr-22 Property Situated At Freehold - Within Mohammad Rafiq . (Borrower), Rs. 903002/-Municipal Limit P No-Wz-1255 E/3 Khasra No

Naseem Alisher (Co-Borrower)

(A/c No.) L9001060116242490

Abid . (Borrower), Hasami . (Co-

(A/c No.) L9001061121818160

(A/c No.) L9001060123105028

(A/c No.) L9001060120266617

(A/c No.) L9001060125007152

(A/c No.) L9001060115273917

(A/c No.) L9001060121230031

(A/c No.) L9001060716903852

Perfect Protection Force Pvt Ltd

(A/c No.) L9001060817675874

Urneed Online Retail Through its

(Co-Borrower), Smt.Sunita Kumari

Shyamsunder . (Borrower), Gupta

(A/c No.) L9001060115092562

(A/c No.) L9001061124588771

(A/c No.) L9001060820146041

Dinesh Singh (Co-Borrower)

A/c No.) L9001061124276557

(A/c No.) L9001060116898567

Dinesh Singh (Co-Borrower)

Singh (Co-Borrower)

(Co-Borrower)

Borrower)

(A/c No.) L9001061124276357

(A/c No.) L9001060114187193

Virender Bhardwaj (Borrower),

(A/c No.) L9001060120641560

(A/c No.) L9001060700909225

(A/c No.) L9001060120216110

(A/c No.) L9001060824194550

(A/c No.) L9001060118753231

(A/c No.) L9001061121919586

(A/c No.) L9001060118803904

(A/c No.) L9001060719188482

Singh (Co-Borrower)

Place: Delhi

Sonu Fogat Dairy (Borrower), Sonu .

(Co-Borrower), Om Bir (Co-Borrower),

Co-Borrower), Pawan Goyal (Co-

Co-Borrower), Pawan Goyal (Co-

Singh (Co-Borrower)

Sunder Nagar (Borrower), Smt. Rekha

(Co-Borrower), (Co-Borrower), (Co-

Nagar (Co-Borrower), Hemchand Nagar

Subhash Bhati (Borrower & Mortgagor),

litendra (Borrower), Asha (Co-Borrower)

Jitendra Transport Services (Borrower),

Naresh Kumar (Borrower), Guddi Devi

Piyush Goyal (Borrower), Sudha Goyal

Piyush Goyal (Borrower), Sudha Goyal

(Co-Borrower), Sonu (Co-Borrower)

litendra . (Co-Borrower) , Asha (Co-

Smt. Mantesh (Co-Borrower), Dheer

Sonu Fogat Dairy (Borrower), Sonu

(Co-Borrower), Om Bir (Co-Borrower),

Satyawati Devi (Co-Borrower), Charan

Surender . (Co-Borrower), Anil Bhardwaj

Subhash Bhati (Borrower), Mantesh,

Paras Singh (Borrower), Sushma Devi

(Co-Borrower), Rahul . (Co-Borrower),

Shyam Parkash (Borrower), Jay Prakash

Co-Borrower), Ramesh Ramesh (Co-

Paras Singh (Borrower), Sushma Devi

(Co-Borrower), Rahul . (Co-Borrower),

Borrower), Virma Virma (Co-Borrower)

(Co-Borrower), Dhir Singh (Co-Borrower)

Brahma (Co-Borrower)

Proprietor Durga, Durga Madhab Panda

Vishnu (Co-Borrower), Lakshmi Devi (Co-

Borrower)

(Borrower),

Borrower)

Manoj (Borrower), Smt. Krishna (Co-

Parvinder Nagar (Borrower), Jaibir (Co-

Borrower), Smt. Munesh (Co-Borrower)

Borrower), Pinki (Co-Borrower)

Ramesh Chand (Borrower), Saroj Devi

(Co-Borrower), Anil Bhati (Co-Borrower)

Alok Bhati (Borrower), Rajbir Singh (Co-

Aman Chauhan (Borrower), Dinesh

Singh (Co-Borrower), Madhu (Co-

Ramesh Chand (Borrower), Saroj Devi

(Co-Borrower), Anil Bhati (Co-Borrower)

Borrower)

Two Only As on 6-Apr-22 (A/c No.) L9001060120657927 13-Apr-22 Tasweer Raza Naqvi (Borrower), Urusa Rs. 2846573/-Rs. Twenty-Eight Lac Forty-Six Nagvi (Co-Borrower) Thousand Five Hundred Seventy Three only As on 13-Apr-22

Name of the Borrower/ Co-Borrower Date and Amount of Demand

Rs. Thirteen Lac Thirteen Ghaziabad Admeasuring 174 Sqyds Thousand Five Hundred Four only As on 12-Apr-22 13-Apr-22 Property Situated At Freehold - Municipal Rs. 183142/-Limit Metro And Urban 43 299 Prashant Rs. One Lac Eighty-Three Garden Ghaziabad Loni Uttar Pradesh

Thousand One Hundred Forty-Admeasuring 71 Sqyds Two only As on 12-Apr-22 Property Situated At Freehold - Municipal 13-Apr-22 Rs. 1123281/-Limit Metro And Urban 523 Khasra No 523 Rs. Eleven Lac Twenty-Three Sikandrabad Bulandshahr Uttar Pradesh Thousand Two Hundred Eighty-Admeasuring 163.88 Sqyds One only As on 13-Apr-22

Rs. Nine Lac Seventy-Six Garden Khora Colony Ghaziabad Loni Uttar Pradesh Admeasuring 71 Sqyds Thousand Five Hundred Forty Eight only As on 12-Apr-22 Property Situated At Bisrakh Jalalpur Gautam 18-Apr-22 Rs. 2652303/-Buddha Nagar Uttar Pradesh 203207 Rs. Twenty-Six Lac Fifty-Two Admeasuring 265 Sqyds Thousand Three Hundred Three only As on 16-Apr-22 21-Apr-22 Property Situated At Kh No 2506, Tulsi Vihar, Rs. 959769/-(Tulsi Niketan), Kasba Dadri, Tehsl- Dadri, Distt. Rs. Nine Lac Fifty-Nine Thousand Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh

Apr-22 Plot Of Donr, South - Plot Of Maharaj Singh Admeasuring 400 Sqyds Property Situated At Freehold - Within 8-Apr-22 Municipal Limit H.No.406-C 406-D Surya Nagar Rs. 6572417/-Rs. Sixty-Five Lac Seventy-Two Faridabad Haryana Admeasuring 120 Sqyds Thousand Four Hundred Seventeen Only As on 6-Apr-22

Property Situated At C-2 2Nd Floor Khasra No. 298/1 Lal Dora Of Village Ghitorni Delhi Delhi 110030 Admeasuring 75 Square Yard Thousand Twenty-Five Only As on

> Kila No 15/2/20 Saran Faridabad Haryana Admeasuring 25 Sqyds Property Situated At Dt-7, Tirkha Colony, Ballabgarh, Faridabad Haryana-, Admeasuring

Property Situated At Freehold - Within

Municipal Limit Plot No 259-A Mustil No 30

2215 Sq Yd Property Situated At Municipal Corporation

194 24 1156 Baldev Nagar Gurgaon Admeasuring 50 Sayds

Property Situated At Palwal Near Sarkari Girls School Phulwari(156) Faridabad Haryana 121002- Admeasuring 100 Sqyds

Property Situated At Freehold - Within Municipal Limit 194/24 Baldev Nagar Gali No

18 Gurgaon Haryana Admeasuring 50 Sqyds Property Situated At Faridabad Haryana 121004- Admeasuring 260 Sqyds

(1) Property Situated At Freehold - Within Municipal Limit 4215 Nangla Road Nangla Enclave Part 1 Faridabad Haryana Admeasuring 53 SqFt (2) Property Situated At 126 127 Nangla Road

Nangla Enclave Faridabad Haryana Admeasuring 106 SqFt Property Situated At Khewat No. 362/296 Min

Khatoni No. 919/773, 1412/1524, 1413/1525

Mum No. 36, Kill No.20 (0-12), Khatoni Num.

1413/7773, Mum No. 26, Property From Mum No. 33, Kill No. 05, Waka Mauja, Tigaon, Faridabad, Haryana Admeasuring 450 Sq. Yrd. Property At Aaraji Khasra No. Muni. No. 132, Killa No. 6/2, 7/1, 14, 15, 16/2, 17/1, 25/1, 27 House No. B 1-7, At Vill.-Sihi (Tirkha Colony), Th.-Ballabgarh, Dist.-Faridabad, Haryana

Admeasuring 107 Sq. Yds

Property Situated At Freehold - Municipal Limit

Metro And Urban 39 Khasra No 52 14 Jeevan

Nagar Part 2 Gaunchi Faridabad Haryana Admeasuring 100 Sqyds Property Situated At Municipal Corporation Khasra No 52 14 16 Plot No 39 Gaunchi Jeevan

Nagar Ballabgarh Faridabad Haryana Rs. Ten Lac Nineteen Thousand Eight Hundred Sixty-Seven Only Admeasuring 100 Sqyds Property Situated At Freehold - Municipal Limit Semi Urban And Rural O Khewat No 1224 Rs. Five Lac Thirty-Four

Dhara Colony Pataudi Gurgaon Admeasuring 242 Sqyds Property Situated At Freehold - Municipal Limit Metro And Urban 35 Bhimgarh Kheri Gurgaon Admeasuring 35 Sqyds

Property Situated At Freehold - Municipal Limit Metro And Urban 218/A 389(0-15-0)

Bhim Garh Kheri Gurgaon Admeasuring 35 Thousand Three Hundred Eighty-Property Situated At Freehold - Municipal Limit Metro And Urban Waka Mauja Fatehput

Authorised Officer AU Small Finance Bank Limited

Boloch 20 5 2 1 Faridabad Faridabad

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank for an amount of Rs.24,25,552.00 and interest thereon less amount credited to loan A/c CC-50429482826 & TL A/c No-50520293286 after 06.03.2022 till date.

> The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. **DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY** All the part and parcel of the Plot no 14, related to Khasra No. 425, 426, 428, 430, 432 & 408,

> Area admeasuring 90.40 Sq.mtr. situated at village Sikri Khurd, Pargana Jalalabad,

APPENDIX – IV [(Rule-8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Where as the undersigned being the Authorised Officer of the Indian Bank under the

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interes

[Act, 2002 (54 of 2002)] and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with [rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 05/03/2022 Calling upon the borrower M/s Mahi Constructions Prop. Harish Tyagi S/o Shri Jitendra Tyagi with Navyug Market Ghaziabad eAB Branch to repay the amount mentioned in the notice being Rs.24,25,552.00 (Rupees Twenty four lakh twenty five thousand five hundred fifty two

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and

the public in general that the undersigned has taken possession of the property described

herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 9th day of

Only) plus interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

Tehsil Modinagar Dist. Ghaziabad U.P. – property in the name of Smt. Rajni Tyagi Bounded as under; East: Vacant plot of society West: Plot no. 13 North: 50 ft. wide road South: Vacant plot of society Borrower(s): M/s Mahi Construction through Proprietor Mr. Harish Tyagi S/o Mr. Jitender Tyagi

Mortgagor & Guarantor: Smt. Rajni Tyagi W/o Mr. Harish Tyagi Proprietor & Guarantor: Mr. Harish Tyagi S/o Mr. Jitender Tyagi

DATE: 09.05.2022 **PLACE: Ghaziabad**

(V S Modak) Authorised Officer & Chief Manager, (Indian Bank)



SHIVKAMAL IMPEX LIMITED Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016

Tel: 011-26192964, e-mail: siv_kamal@yahoo.com, info@shivkamalimpex.com Website: www.shivkamalimpex.com CIN: L52110DL1985PLC019893 Extract of Audited Financial Results for the

		de con la tarte	V	(R	s. In lakhs)	
SI.	Particulars	Quarte	rended	Year ended		
No.		31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	
1	Total Income from Operations	6.72	7.98	31,41	32.55	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	2.87	4.12	19.27	21.98	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	2.87	4.12	19.27	21.98	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	2.17	3.08	14.42	16.45	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2.17	3.08	14.42	16.45	
6	Paid up Equity Share Capital	100.56	100.56	100.56	100.56	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet			546.41	531.99	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualized for quarter)					

Basic

Diluted

Place: New Delhi

Date: 14.05.2022

 The above is an extract of detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and Company's Website at www.shivkamalimpex.com.

2. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and

Rs. 0.21

approved by the Board of Directors of the company at their respective Meeting(s) held on May 14, 2022.

By the Order of the Board For Shivkamal Impex Limited Manu Jain

Rs. 0.21 Rs. 0.31 Rs. 1.43 Rs. 1.64

Rs. 1.43

Rs. 0.31

U45200DL2010PTC200431

(Director) DIN-07801467

PUBLIC ANNOUNCEMENT

FORM A

Funder Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

((Insolvency Resolution Process for Corpora	
	FOR THE ATTENTION OF THE K.S.N. BUILDWELL PRI	
	RELEVANT PARTIC	ULARS
	Name of Corporate Debtor K.S.N. BU	ILDWELL PRIVATE LIMITED
	Date of incorporation of Corporate Debtor 19.03.201	0
	Authority under which Corporate Debtor RoC-Delh is incorporated / registered	

4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor Address of the registered office and H.No 227-B, North School Block Mandawali, principal office (if any) of Corporate Debtor Fazalpur, Delhi East Delhi-110092 IN A-60C, First Floor, Sector 63, Noida-201301 UP Order Pronounced on 13.05.2022 Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor 09.11.2022 (which is 180 days from the Insolvency Estimated date of closure of insolvency Name and Registration number of the Anil Matta insolvency professional acting as Interim Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00223/2017-2018/10422 Resolution Professional Matta & Associates, 308, RG Trade Tower, Plot No. B-7, Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034. Email: mattaassociates@gmail.com Matta & Associates, 308, RG Trade Tower, Plot No. B-7, Address and e-mail to be used for Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034. correspondence with the Interim Email: cirpksn2021@gmail.com Resolution Professional 28.05.2022 Last date for submission of claims [2] Classes of creditors, if any, under clause (b) One class of Creditors i.e. the Allottees of sub-section (6A) of section 21, ascertained under the Real Estate Project. by the Interim Resolution Professional

3. Names of insolvency professionals identified 1. Arvinder Singh Kindra Regn No: IBBI/IPA-002/IP-N00873/2019-2020/12830 to act as authorised representative of creditors in a class (three names for each class) B-1, Takshshila Apartments, Plot No. 57, IP Extension, Patparganj, Delhi- 110092. 2. Radheyshyam Yadav Regn No: IBBI/IPA-001/IP-P01496/2018-19/12255

Flat No-2, Akriti Appts., 62 IP Extn. Patparganj. 3. Rajeev Lochan Regn No: IBBI/IPA-002/IP-N00606/2018-19/11885 243. First Floor, AGCR Enclave, Delhi-110092

14. a) Relevant Forms - The Submission of (a) Weblink: https://ibbi.gov.in/home/downloads claims with proofs is to be made in FORM B -for claims by operational creditors accordance with chapter IV of the FORM C -for claims by financial creditors Insolvency and Bankruptcy board other than home buyers, (Insolvency Resolution process for FORM D -for claims by workmen and employees corporate persons) Regulations, 2016. The FORM E -for claims by authorized representative

proof of claim is to be submitted in by way of of Workmen & Employees FORM F -for claims by creditors (Other than the following specified Forms: Operational and Financial Creditor) (b) Pls refer Sr. No.13. (b) Details of authorized representatives

the commencement of a corporate insolvency resolution process of the K.S.N. Buildwell Private Limited The creditors of K.S.N Buildwell Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 28th May 2022 (14 days from the date of receiving of order for appointment of IRP i.e. 13th

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal New Delhi Bench-IV has ordered

May 2022) to the Interim Resolution professional at the address mentioned against entry No. 10, The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

CA Anil Matta Date: 14.05.2022 Interim Resolution Professional for K.S.N. Buildwell Private Limited (under CIRP) Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00223/2017-2018/10422

financialexp.epap.in

Note: This Notice also referes to all lega

पंजाब नैश्ननल बैंक 🔘 punjab national bank ...the name you can BANK upon!

Meerut, UP, PIN-250001, Sh Vikas Kumar Sharma S/o Late Sh Satya Prakash Sharma name of Smt. Vinita W/o Sh Vikas Kumar Sharma & Sh Vikas

(Borrower + Mortgager) Add1: - A-110, IInd Floor, Som Dutt City, Garh Road, Meerut, UP, Kumar Sharma S/o Late Sh Satya Prakash Sharma Boundaries

PIN-250004 Add2: - C-151, Shastri Nagar, Meerut, UP, PIN-250001. Manoj Kumar Sagar & dimension as per sale deed:- East: Unit/Flat No. A-111 West:

(Guarantor) Add: - B-66/1, Jwala nagar, Sabun Godam, Meerut, UP, PIN-250002. Mohd Unit/Flat No. A-109, North: Colony Road 12 Meter Wide,

POSSESSION NOTHER (For Immovable/Immovable Property) (Rule 8(1))

(a) Demand notice Date

(b) Symbolic

Possession date

(a) 24.01.2022

and also

published in

newspaper on

dated

09.02.2022

(b) 12.05.2022

Authorised Officer, Punjab National Bank

Rs. Nine Lac Three Thousand

13-Apr-22

Rs. 1313504/-

13-Apr-22

Rs. 976548/-

Seven Hundred Sixty-Nine Only

As on 20-Apr-22

22-Apr-22

Rs. 1581011/-

Rs. Fifteen Lac Eighty-One

Thousand Eleven Only As on 12-

8-Apr-22

Rs. 679025/-

Rs. Six Lac Seventy-Nine

6-Apr-22

13-Apr-22

Rs. 3473121/-

Rs. Thirty-Four Lac Seventy-

Three Thousand One Hundred

Twenty-One only As on 12-Apr-

22

13-Apr-22

Rs. 426898/-

Rs. Four Lac Twenty-Six

Thousand Eight Hundred Ninety

Eight only As on 12-Apr-22

13-Apr-22

Rs. 538460/-

Rs. Five Lac Thirty-Eight

Thousand Four Hundred Sixty

only As on 12-Apr-22

13-Apr-22

Rs. 311932/-

Rs. Three Lac Eleven Thousand

Nine Hundred Thirty-Two only As

on 12-Apr-22

13-Apr-22

Rs. 968211/-

Rs. Nine Lac Sixty-Eight

Thousand Two Hundred Eleven

only As on 12-Apr-22

13-Apr-22

Rs. 257744/-

Rs. Two Lac Fifty-Seven

Thousand Seven Hundred Forty-

Four only As on 12-Apr-22

13-Apr-22

Rs. 2569421/-

Rs. Twenty-Five Lac Sixty-Nine

Thousand Four Hundred Twenty-

One only As on 12-Apr-22

13-Apr-22

Rs. 1138327/-

Rs. Eleven Lac Thirty-Eight

Thousand Three Hundred

Twenty-Seven only As on 12-Apr-

13-Apr-22

Rs. 2086444/-

Rs. Twenty Lac Eighty-Six

Thousand Four Hundred Forty-

Four only As on 12-Apr-22

19-Apr-22

Rs. 1469618/-

Rs. Fourteen Lac Sixty-Nine

Thousand Six Hundred Eighteen

Only As on 18-Apr-22

19-Apr-22

Rs. 1019867/-

As on 18-Apr-22

22-Apr-22

Rs. 534683/-

Thousand Six Hundred Eighty

Three Only As on 12-Apr-22

22-Apr-22

Rs. 312685/-

Rs. Three Lac Twelve Thousand

Six Hundred Eighty-Five Only As

on 12-Apr-22

22-Apr-22

Rs. 1691388/-

Rs. Sixteen Lac Ninety-One

Eight Only As on 12-Apr-22

22-Apr-22

Rs. 1370693/-

Rs. Thirteen Lac Seventy

Satyawati Devi (Co-Borrower), Charan Thousand Six Hundred Ninety Three Only As on 13-Apr-22 Date: 14-05-2022

Ballabgarh Haryana Admeasuring 260 Sqyds

Place: New Delhi

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालयः नंबर 2, डेयर हाउस, पहली मंजिल, एनएससी बोस रोड, चेन्नई – 600001 शाखा कार्यालयः पहली और दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर ६, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली—110005

सावजानक सूचना

एतदद्वारा नितिन गुप्ता, पूजा गुप्ता, जय प्रकाश गुप्ता और मेसर्स जे पी केंबल एन्ड वायर्स, लोन अकाउंट नंब X0HEELD00001598962 और X0HEDHE00001394182 और X0HEELD0000227233 को सूचित किया जाता है कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने सीएमएम कोर्ट के आदेश के माध्यम से मानसरोवर पार्क शाहदरा दिल्ली'' स्थित संपत्ति धारक कंपाउंड नंबर 30, ब्लॉक-एफ, खसरा नं. 1096/322 एवं 1097/322 में से, मौजा चंद्रावली स्थित अपनी प्रतिभूति संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। उक्त परिसर में ऋणदाताओं का कुछ सामान उक्त संपत्ति में पड़ा हुआ है ,भौतिक कब्जा देते हुए कब्जे की तिथि से उक्त परिसर से चल वस्तुओं को हटाने के लिए आपको पहले ही विभिन्न सूचनाएं दी जा चुकी हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में आपको एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि उस चल सम्पत्ति को हटा ले और इस नोटिस के प्रकाशित होने के सात दिनों के भीतर शाखा से संपर्क करें, ऐसा न करने पर हम बिना किसी सूचना के अज्ञात और दावा न की गई संपत्ति के रूप में उक्त सामान का निपटान करेंगे।

स्थानः दिल्ली/एनसीआर, अधिकृत अधिकारी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड दिनांक :15.05.2022

चीलामंडलम इन्वेस्टमेट एण्ड फाइनेस कम्पनी लिमिटेड Chola कॉर्पोरेट कार्यालय : प्रथम तल, डेयर हाउस, नं. 2, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600 001.

शाखा कार्यालय : 1ला तथा 2सरा तल, प्लॉट नं. 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रातभातकरण एव पुनानमाण तथा प्रातभात हित प्रवतन आधानयम, 2002 के तहत मैसर्स चोलामण्डलम का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे कॉलम (बी) में सचित नाम वाले कर्जदारों से नीचे कॉलम (डी) में सचित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का कथित सचना की प्राप्ति की तिथि से 60

कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नियमों के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) तथा उसके तहत निर्मित नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में यहां नीचे कॉलम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक सम्पत्तियों पर कॉलम (एफ) में वर्णित सम्बन्धित तिथियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को एतद्वारा नीचे कॉलम (ई) में वर्णित सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और ऐसा कोई संव्यवहार कॉलम (डी) में वर्णित राशि एवं ब्याज सहित अन्य प्रभारों के लिए मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के

दिनों के भीतर पुनर्भगतान करने को कहते हुए कॉलम (सी) में निर्दिष्ट तिथियों पर मांग सुचनाएं जारी की थीं।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम तथा पता और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना ि की तिथि	बकाया च सांश	कब्जाकृत सम्पत्ति का विवरण [E]	सांकेतिक कर्ड न की तिथि
1.	ऋण खाता संख्या X0HEDET00002195144 और X0HEDET00002195231) 1. ओसिहार प्रसाद पताः आरजेड-5/166 ए गली नं6ए, दुर्गा पार्क, नई दिल्ली - 110046 2. चिंता मणि देवी पताः आरजेड-5/166 ए गली नं6ए, दुर्गा पार्क, नई दिल्ली - 110046 3. मैसर्स जवाहर इंस्टीट्यूट पताः खसरा नंबर-171 दुर्गा पार्क, नसीरपुर रोड, नई दिल्ली - 110046	29.10.2021	रु. 21,12,499.92 तिथि 14.10.2021 तक	संपत्ति प्लाट नंबर 5, भूमि माप 200 वर्ग गज का समस्त भाग, खसरा नं.166 में से, गांव नसीरपुर दिल्ली, आबादी दुर्गा पार्क, नई दिल्ली - 110045, भूमि के सभी फ्रीहोल्ड अधिकारों के साथ; और सीमाएँ: - उत्तर: प्लॉट नंबर 4, दक्षिण: प्लॉट नंबर 6, पूर्व: गली 8 फीट चौड़ी, पश्चिम: रोड 20 फीट चौड़ा	22
2.	ऋण खाता संख्या X0HEDEF00003218046, X0HEDEF00003286385 और HE02DEF00000002766) 1. दलजीत सिंह पताः ए-46/ए महावीर विहार द्वारका सेक्टर-1, पालम गांव, नई दिल्ली, 110045 साथ ही :- दलजीत सिंह मैसर्स ग्लोबल लॉजिस्टिक्स रिजॉल्यूशन इंक. नं-109 प्रथम तल, एल-1 पुराना नंबर-एल-38 और एल-38ए, शिवशक्ति प्लाजा, नई दिल्ली, 110045 2. दर्शन कौर पताः ए-46/ए महावीर विहार द्वारका सेक्टर-1, पालम गांव, नई दिल्ली, 110045 3. मैसर्स ग्लोबल लॉजिस्टिक्स रिजॉल्यूशन इंक पताः नं-109 प्रथम तल, एल-1 पुराना नं. एल -38 और एल-38ए, शिवशक्ति प्लाजा, नई दिल्ली, 110045 4. सुरजीत कौर, पताः ए-46/ए महावीर विहार द्वारका सेक्टर-1, पालम गांव, नई दिल्ली, 110045	24.12.2021	रु. 34,49,643.90 तिथि 09.12.2021 तक	संपत्ति संख्या ए-46-ए, खसरा संख्या 79/21/1 में से, माप 60 वर्ग गज का भाग, महावीर विहार, ब्लॉक-ए, पालम, दिल्ली में स्थित छत / टेरेस के अधिकार सहित, सीमाएँ:- पूर्व - अन्य की संपत्ति, पश्चिम - अन्य की संपत्ति, उत्तर - सड़क 20'फीट, दक्षिण - उक्त संपत्ति का हिस्सा	
3.	ऋण खाता संख्या X0HEELD00001546925 और X0HEELD00001546907) 1. दिनेश कुमार वोहरा पता: 1/6348 पूर्व रोहताश नगर नई दिल्ली - 110032 2. कवल केआर वोहरा पता: 1/6348 पूर्व रोहताश नगर, नई दिल्ली - 110032 3. मीनू वोहरा पता: 1/6348 स्ट्रीट नंबर-5 पूर्व रोहताश नगर शाहदरा, नई दिल्ली - 110032 4. विजय कुमार वोहरा पता: 1/6348 गली नं5 पूर्व रोहताश नगर शाहदरा, नई दिल्ली - 110032 5. ज्योति हंस पता: 1/6348 पूर्वी रोहताश नगर शाहदरा नई दिल्ली - 110032	10.06.2021	रु. 24,76,560.12 तिथि 09.06.2021 तक	संपत्ति क्षेत्रफल 54 वर्ग गज, सं. 1/6348 है, खसरा संख्या 329 और 330 में से, माप 108 वर्ग मीटर का कुल क्षेत्रफल, सिकदरपुर गांव के क्षेत्र में स्थित, पूर्वी रोहताश नगर, गली नंबर 5, शाहदरा, दिल्ली का समस्त भाग	
4.	ऋण खाता संख्या X0HEDHE00001179302) 1. हरविंदर संधू 2. जितंदर सिंह 3. मिनंदर कौर पता : आरजेड-सी/9ए, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली- 110018	16.12.2021	रु. 44,40,929.45 तिथि 09.06.2021 तक	सम्पत्ति नंबर आरजेड सी-09, खसरा नंबर 11/09 में से, माप 165 वर्ग गज का समस्त भाग, ख्याला, आबादी विष्णु गार्डन, ब्लॉक आरजेड, नई दिल्ली में स्थित, सीमाएँ-पूर्व-रोड, पश्चिम - अन्य संपत्ति, उत्तर - अन्य संपत्ति, दक्षिण - ओंकार सिंह	022
5.	ऋण खाता संख्या X0HEELD00003034612, X0HEELD000002976332 और HE02ELD00000002133) 1. महेश चंद: पुत्र प्रेमचंद जे-45/1, छोटा पुस्ता-4 मेन रोड, करतार नगर, भजन पुरा, नई दिल्ली - 110053 2. बबीता देवी पत्नी महेश चंद पता : जे-45/1, छोटा पुस्ता-4 मेन रोड, करतार नगर, भजन पुरा, नई दिल्ली - 110053 3. एस.एस. इंटरप्राइजेज पता: जे जे-45/1, छोटा पुस्ता-4 मेन रोड, करतार नगर, भजन पुरा, नई दिल्ली - 110053	29.10.2021	रु. 31,49,919.69/- तिथि 13.10.2021 तथा 14.10.2021 तक	बिल्ट अप सम्पत्ति क्षेत्रफल 100 यानी 83.61 वर्ग मीटर, संपत्ति संख्या जे 45 बी, खसरा संख्या 142,143 का सम्पूर्ण भाग, अंतिम मंजिल पर उपयोग और निर्माण के अधिकार सहित, ग्राम घोंडा गुजरान खादर, आबादी जे ब्लॉक, मेन रोड, चौथा पुस्ता, करतार नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली - 110053 में स्थित, उत्तरः गली 10 फीट चौड़ी, दक्षिणः सड़क 20 फीट चौड़ा, पूर्वः दूसरों की संपत्ति, पश्चिमः श्याम सुंदर की संपत्ति।	
5.	ऋण खाता संख्या X0HEDHE00001338921) 1. मनीष भारद्वाज 2. उषा भारद्वाज पता : ई-466 दुर्गा गली, छज्जूपुर पूर्व बाबरपुर शाहदरा, नई दिल्ली - 110032	12.06.2021	रु. 57,15,846.18 तिथि 09.06.2021 तक	संपति संख्या 466-ई, खसरा संख्या 150 में से माप 42.5 वर्ग गज का सम्पूर्ण भाग, गाँव- सिकदरपुर में, दुर्गा गली, महर्षि दयानंद मार्ग, दिल्ली के पूर्वी बाबर की आबादी में स्थित।	13.05.2022
7.	ऋण खाता संख्या X0HEDEF00003430851) 1. मोहम्मद यूसुफ 2. फराह एम उर्फ फराह 3. मैसर्स गोल्डन जरी एम्पोरियम 4. सायरा बी उर्फ सायरा उपरोक्त सभी का पताः मकान नं-4929/पी-5, गली नं-6, सरताज मोहल्ला, कृष्णा नगर, नई दिल्ली -	29.11.2021	रु. 28,28,994.31 तिथि 11.11.2021 तक	सम्पत्ति सं. 4929-पी/5ए, क्षेत्रफल 52 वर्ग गज, कुल क्षेत्रफल 295 वर्ग गज में से, खसरा नंबर 689/442 का सम्पूर्ण भाग, पूर्वी पुराने सीलमपुर, कांति नगर एक्सटेंशन, इलाका शाहदरा, दिल्ली की आबादी में स्थित, सीमाएँ: पूर्व - अन्य की संपत्ति, पश्चिम - गली 15' फीट चौड़ी, उत्तर - दूसरे की संपत्ति, दक्षिण - दूसरे की संपत्ति	
8.	ऋण खाता संख्या X0HEELD00001545579 और X0HEEDEF00002127970) 1. नरेंद्र कुमार 2. रेशमाः 3. मैसर्स रॉयल इंटरप्राइजेज सभी का पता : मकान नं. 1/574 डी, मोती राम रोड, मानसरोवर पार्क शाहदरा नई दिल्ली - 110 032	03.08.2021	रु. 43,45,687.49/- तिथि 09.06.2021 तक	खसरा संख्या 3491/2946/1142/126 में से निर्मित संपत्ति संख्या 574, माप 55 वर्ग गज, ग्राम चंद्रावली उर्फ शाहदरा, आबादी, मोदी राम मार्ग राम नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली के क्षेत्र में स्थित।	
9.	ऋण खाता संख्या X0HEDHE00001372950, X0HEEDL00002492032 और HE02EDL00000007545) 1. रागिनी गुप्ता पताः प्लॉट नंबर एस-49, डीएलएफ अंकुर विहार लोनी गाजियाबाद, गाजियाबाद - 201002 2. राकेश कुमार जायसवाल उर्फ राकेश कुमार पताः प्लॉट नंबर एस-49, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी गाजियाबाद, गाजियाबाद - 201002 3. राजेश कुमारः पताः प्लॉट नंबर एस-49, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी गाजियाबाद, गाजियाबाद - 201002 4. मीना जायसवाल पताः प्लॉट नंबर एस-49, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी गाजियाबाद, गाजियाबाद - 201002 5. रॉक स्टार 99 पताः नेहरू नगर, पी.एन.ओ421 एलजीएफ टैंक	27.12.2021	रु. 74,76,680.70 तिथि 20.12.2021 तक	प्लॉट नं49 का समस्त भाग, माप 128 वर्गमीटर का समस्त भाग, आवासीय कॉलोनी डीएलएफ अंकुर विहार, ग्राम लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, सीमाएँ:- उत्तर: 8.0 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण: 8.0 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्व:- प्लॉट सं. एस-48, पश्चिम : प्लॉट सं. एस-50	
10.	रोड करोल बाग, नई दिल्ली -110005. ऋण खाता संख्या XCMFDHE00001229325 और X0HEDEF00001980209) 1. राजेंद्र सिंह उर्फ राजेंद्र 2. माधुरी देवी उर्फ माधुरी पता : 2815 गली राजपूताना धर्मशाला सब्जी मंडी, नई दिल्ली - 110007 3. पंकज पनीर भंडार पता : दुकान नंबर-5100-ए रोशनरा गार्डन निकट मुरलीवाला कुआं सब्जी मंडी नई दिल्ली - 110007	21.08.2021	रु. 22,22,895.53 तिथि 21.08.2021 तक	रौशनारा गार्डन, मुरली वालाकौन सब्जी मंडी, दिल्ली में स्थित संपत्ति संख्या 5100/ए के भूतल 15 वर्ग मीटर की दुकान	

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank

भारत सरकार का उपक्रम शा.का.: शताब्दी नगर, मेरठ दूरभाष: 0121-2441199

(नियम–8(1)) आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

1. श्री राहुल शर्मा पुत्र री सत्येंद्र शर्मा, मकान संख्या पी 340, ईडब्ल्यूएस, पल्लवपुरम फेज 2 मेरठ (ऋणकर्ता) 2. श्रीमती राजरानी पत्नी सत्येंद्र शर्मा, मकान संख्या पी 340, ईडब्ल्युएस, पल्लवपुरम फेज 2 मोदीपुरम मेरठ (सह–आवेदक) 3. श्री संदीप भल्ला पुत्र श्री इंदरजीत भल्ला, मकान संख्या एमएच 30, पल्लवपुरम फेज 2 मेरठ (गारंटर)

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने युनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में आंध्र बैंक), शताब्दी नगर, मेरठ के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पिठत अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों के प्रयोगांतर्गत एक मांग सूचना दिनांकित 06.11.2019 निर्गत की थी, जिसमें संपत्ति 1 के ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / स्वामी(मियों), 1. श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री सत्येंद्र शर्मा, 2. राजरानी पत्नी सत्येंद्र शर्मा, 3. श्री संदीप भल्ला पुत्र श्री इंदरजीत भल्ला को सूचना में अंकित 17.05.2021 के अनुसार रु. 18,21,045.67 (रुपए अट्ठारह लाख इक्कीस हजार पैंतालिस एवं सतसठ पैसे मात्र) की एक राशि और इस राशि पर भावी ब्याज, व्ययों तथा अन्य शुल्कों के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की

तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभूगतान करने को कहा गया था। चूंकि संपत्ति के ऋणकर्ता(गण) / गारंटर(गण) / स्वामी(गण) निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभूगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदुद्वारा ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / स्वामी(मियों) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत

उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 05.10.2021 को आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / स्वामी(मियों) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन जो होगा, वह 17.05.2021 के अनुसार रु. 18,21,045.67 (रुपए अट्टारह लाख इक्कीस हजार पैंतालिस एवं सतसठ पैसे मात्र) की एक राशि और 18.05.2021 से प्रभावी इस राशि पर भावी ब्याज, व्ययों तथा अन्य शुल्कों हेत् यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में आंध्र बैंक), शताब्दी नगर, मेरठ के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभृत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर भी आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरणः

श्री राहुल शर्मा पुत्र सत्येंद्र शर्मा से संबंधित शहरी भूमि के समस्त वह भाग तथा अंश जो भूखंड संख्या एमएस–33 पर और पॉकेट एमएस पल्लवपुरम फेज 2 परगना दौराला, तहसील-सरधना एवं जनपद मेरठ, आवासीय कॉलोनी मेरठ, ग्राम मेरठ में स्थित हैं, जिनका अधिमापन 84 वर्ग मीटर है और जो इस प्रकार परिसीमित है:

पूर्व-4.5 मीटर चौड़ी सड़क पश्चिम-भूखंड संख्या एमएस-36 उत्तर– भूखंड संख्या एमएस-32 भूखंड संख्या एमएस-34

दिनाकः 11.05.2022, स्थानः मेरठ

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Moneywise. Be wise

SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC063609 Registered Office: 11/6B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi - 110005, India Phone: 011-30111000, 40753333, Fax: 011-25754365, Website: www.smcindiaonline.com; E-mail: smc@smcindiaonline.com; Company Secretary & Compliance Officer: Mr. Suman Kumar

CORRIGENDUM TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT DATED MAY 09, 2022 PUBLISHED IN THE NEWSPAPERS ON MAY 10 2022 BY SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED ("THE COMPANY") FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS. BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES FROM THE OPEN MARKET THROUGH STOCK EXCHANGES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("BUYBACK REGULATIONS")

This corrigendum ("Corrigendum") is in continuation of, and should be read in conjunction with the public announcement dated May 09, 2022 and published on May 10, 2022 ("Public Announcement") by SMC Global Securities Limited (the "Company") for buyback by the Company of its fully paid-up equity shares of a face value of INR 2/- (Indian Rupees Two Only) each ("Equity Shares") from the shareholders/beneficial owners (other than those who are promoters, members of the promoter group or persons in control), from the open market through stock exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e., National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") (collectively, "Stock Exchanges"), for an aggregate amount not exceeding INR 75.00.00.000/- (Indian Rupees Seventy Five Crores Only) ("Maximum Buyback Size") excluding the Transaction Costs and at a price not exceeding INR 115/- (Indian Rupees One Hundred and Fifteen Only) per Equity Share ("Maximum" Buyback Price"), payable in cash (the process being referred hereinafter as "Buyback"). The terms used but not defined in this Corrigendum shall have the meanings as assigned in the Public Announcement.

The equity shareholders/ beneficial owners of the Equity Shares of the Company are requested to take notice of the following changes/ amendments to the Public Announcement dated May 09, 2022:

The details mentioned at Paragraph 8.2 of the Public Announcement, stands revised and shall be read as follows:

S. No.	Name of Director	Name of the Promoter/Promoter Group Company	No. of Shares held	Percentage of Holding
1.	Archana Aggarwal	ASM Pipes Private Limited	30,000	0.03
2	Anurag Bansal	Pulin Investments Private Limited	2,50,000	0.22
3.	Naraian Das Agarwal	Jai Ambey Share Broking Limited	5000	Negligible
4.	Rajeev Aggarwal	Jai Ambey Share Broking Limited	5000	Negligible
5.	Sandeep Aggarwal	SMC Share Brokers Limited	150	Negligible
- 11	Total		2,90,150	0.26

The details mentioned at Paragraph 8.3 of the Public Announcement, stands revised and shall be read as follows:

S. No.	Name of Director/ Key Managerial Personnel	Designation	No. of Shares held	Percentage of Holding
1.	Mahesh Chand Gupta	Promoter Director	82,48,500	7.29
2	Subhash Chand Aggarwal	Promoter Director	80,95,500	7.16
3.	Himanshu Gupta	Promoter Director	20,00,000	1.77
4.	Ajay Garg	Promoter Director	8,41,600	0.74
5.	Anurag Bansal	Promoter Director	2,50,000	0.22
6.	Shruti Aggarwal	Promoter Director	20,175	0.02
7.	Chandra Wadhwa	Independent Director	Nil	NA.
8.	Naveen ND Gupta	Independent Director	Nil	NA
9.	Hari Das Khunteta	Independent Director	Nil	NA.
10.	Kundan Mal Agarwal	Independent Director	Nil	NA.
11.	Madhu Vij	Independent Director	Nil	NA.
12.	Roop Chand Jindal	Independent Director	Nil	NA
13.	Suman Kumar	Company Secretary	Nil	NA.
14.	Vinod Kumar Jamar	Chief Financial Officer	Nil	NA.
	Total		1,94,55,775	17.20

The details mentioned at Paragraph 8.4 of the Public Announcement, stands revised to the extent mentioned below a. In respect of the details mentioned against Ms. Shruti Aggarwal and Ms. Aditi Aggarwal, the same may please be

read as under: Number of Equity Name of Nature of Maximum Date of Minimum Date of price (Rs.) price (Rs.) shareholder Shares transaction maximum maximum purchased/sold price price 23-Aug-2021 Ms. Shruti 20,175 Purchase through 82.93 11-Nov-2021 70.47 Aggarwal open market Ms. Aditi 33,050 Purchase through 77.10 22-Nov-2021 71.20 07-Mar-2022 open market Aggarwal In addition, the following details shall stand added to the Table: 28-Oct-2021 Mr. Narain 5.000 Purchase through 72.21 28-Oct-2021 72.21 Das Agarwal open market Mr.Rajeev 5,000 73.77 24-Aug-2021 72.52 24-Aug-2021 Purchase through Aggarwal open market

5.000 Mr. Rajeev NA. NA. Pledge NA NA Aggarwal 150 Mr. Sandeep NA NA. Pledge NA. Aggarwal

This Corrigendum will be available on website of SEBI (www.sebi.gov.in), on the website of the Company (www.smcindiaonline.com website of the Manager to the Offer (www.corporateprofessionals.com) and website of the stock exchanges (www.nseindia.com

and www.bseindia.com). Directors' responsibility

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this Corrigendum and confirms that the information in this Corrigendum contains true, factual and material information and does not and will not contain any misleading information. This Corrigendum is issued under the authority of the Buyback Committee ii terms of their resolution dated May 14, 2022.

> For and on behalf of the Board of Directors of SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Subhash Chand Aggarwal	Himanshu Gupta	Suman Kumar
Managing Director	Director	Company Secretary & Compliance Officer
(DIN: 00003267)	(DIN: 03187614)	(Membership No. F5824)
Date: May 14, 2022		1

ate. may 14, 2022 Place: New Delhi

अमर वाणिज्य लिमिटेड सीआईएनः एल७४९००डीएल१९८५पीएलसी०२०११८

105, साउथेक्स प्लाजा-।।, लीला राम मार्किट, साउथ एक्सः ।।, नई दिल्ली-110049 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के एकल लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015

विवरण	समाप्त तिमाही 31 मार्च '22 लेखापरीक्षत	समाप्त तिमाही 31 मार्च '21 लेखापरीक्षत	समाप्त वर्ष 31 मार्च '22 लेखापरीक्षत	समाप्त वर्ष 31 मार्च '21 लेखापरीक्षत
परिचालन से कुल राजस्व	8.44	11.62	30.82	38.31
अवधि हेतु निवल लाभ <u>(</u> +)/हानि(-) (कर एवं आपवादिक मदों से पूर्व)	-2.10	56.07	-4.10	-9.08
कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाम्.(+) / हानि(-) (आपवादिक मदों के उपरांत)	-2.10	56.07	-4.10	-9.08
कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ्(+)/हानि (-) (आपवादिक मदों के उपरांत)	-2.10	56.07	-4 .10	-9.08
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ/हानि (कर उपरांत) से समाविष्ट	-100.05	54.40	-102.05	-10.75
समता अंश पूंजी	199.20	199.20	199.20	199.20
पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन–पत्र में निदर्शितानुसार आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)			28.76	32.72
आय प्रति अंश (रु. 10/— प्रत्येक का) (अवार्षिकीकृत) मूल एवं तरलीकृत (रु.)	-0.11	2.81	-0.21	-0.46

टिप्पणियां— 1. उपरोक्त जो है वह 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का एक सारांश है, जिसकी समीक्षा लेखा-परीक्षक समिति द्वारा की गई है और 13.05.2022 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा इनका अनुमोदन किया गया है तथा संवैधानिक लेखा-परीक्षकों द्वारा इनका लेखापरीक्षण किया गया है और इन्हें यथा संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध किया गया है। उपर्युक्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप जो है वह स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों (www.msei.in) पर तथा कंपनी की वेबसाइट (www.amarvanijya.com) पर भी उपलब्ध हैं।

दिनांक: 13.05.2022 स्थान: कोलकाता

हस्ता. / — एम.एस. चौधरी

प्रपत्र ए सार्वजनिक घोषणा

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

1,	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स गोयल ज्वैलरी एंड मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
2	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	09 मई 2006
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज–दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74991DL2006PTC148720
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	2204, गुरुद्वारा रोड, नई दिल्ली—110005 भारत (एमसीए की वेबसाइट के अनुसार)
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	13 मई 2022
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	08 नवंबर 2022
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	मुकेश गुप्ता पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P-01494/2018-2019/12254
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई—मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	एफ—1, मिलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059 ई मेल : camukeship@rediffmail.com (इस ईमेल का उपयोग दावे भेजने के लिए नहीं किया जाना है)
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई—मेल	एफ—1, मिलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059 ईमेल: cirp.gjmpl@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	27 मई, 2022
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वाराधारा 21 की 4 उप—धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	आईआरपी के पास अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार लागू नहीं है
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिहिनत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नही
14.	(क) संबंधित प्रपत्र उपलब्ध है (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है:	(क) प्रासंगिक फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, वेबलिंक https://www.ibbi.gov.in/home/downloads है (ख) आईआरपी के पास अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार लागू नहीं है

आरंभ करने का आदेश दिया है। मैसर्स गोयल ज्वैलरी एंड मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतदहारा अपने दावों का प्रमाण 27 मई 2022

को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित प्रते पर प्रस्तुत करने की मांग की वेत्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा । अन्य सभी लेनदार

अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अधवा इलेक्टॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं । किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं 12 के समक्ष सुचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविध्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपन्न सीए में निदर्शित करेगाँ— आईआरपी के पास अब तक उपलब्ध सचना के अनुसार लाग्

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी। मुकेश गुप्ता दिनांकः 15.05.2022 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, मैसर्स गोयल ज्वैलरी एंड मार्ट प्राइवेट लिर्मिटेड पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-001/IP-P-01494/2018-2019/12254

SHIVKAMAL IMPEX LIMITED Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016 Tel: 011-26192964, e-mail: siv_kamal@yahoo.com, info@shivkamalimpex.com Website: www.shivkamalimpex.com CIN: L52110DL1985PLC019893

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2022

(Rs. In lakhs) Quarter ended Year ended **Particulars** 31.03.2022 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021 No. (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) Total Income from Operations 6.72 7.98 31.41 32.55 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 4.12 2.87 19.27 21.98 Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after 4.12 2.87 19.27 21.98 Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after 3.08 16.45 2.17 14.42 Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period Comprising Profit / (Loss) 3.08 16.45 2.17 14.42 for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid up Equity Share 100.56 100.56 100.56 100.56 Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) 546.41 531.99 as shown in Audited Balance Sheet Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualized for quarter) Basic Rs. 0.21 Rs. 0.31 Rs. 1.43 Rs. 1.64 Diluted Rs. 0.21 Rs. 0.31 Rs. 1.43

The above is an extract of detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and Company's Website at www.shivkamalimpex.com.

The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective Meeting(s) held on May 14, 2022.

By the Order of the Board For Shivkamal Impex Limited Manu Jain (Director) DIN-07801467

कब्जा सूचना

Place: New Delhi Date: 14.05.2022

पंजाब नैशनल बैंक 🔘 punjab national bank

अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता हैं

(अचल / चल सम्पत्ति के लिए) (नियम-8(1)) जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेत एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार/गारन्टर/बंधककर्ता का ध्यान, प्रत्याभृत आस्तियों को छडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में,

188				
क . सं.	(ए) शाखा का नाम/ (बी) खाता का नाम/ (सी) ऋणी का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(ए) मांग नोटिस की तिथि (बी) सांकेतिक कब्जे की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया रकम
1.	(ए) शाखाः जागृति विहार, मेरठ एवं कलेक्ट्रेट, मेरठ, (बी) श्रीमती विनिता पत्नी श्री विकास शर्मा एवं श्री विकास कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री सत्य प्रकाश शर्मा (सी) श्रीमती विनिता पत्नी श्री विकास शर्मा (ऋणी + बंधककती), पता1ः ए-110, द्वितीय तल, सोम दल सिटी, गढ़ रोड, मेरठ, उ0प्र0- 250004, पता 2ः सी-151, शास्त्री नगर, मेरठ, उ0प्र0-250001, श्री विकास कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री सत्य प्रकाश शर्मा (ऋणी + बंधककर्ता), पता1ः ए-110, द्वितीय तल, सोम दल सिटी, गढ़ रोड, मेरठ, उ0प्र0- 250004, पता 2ः सी-151, शास्त्री नगर, मेरठ, उ0प्र0-250001, मनोज कुमार सागर (गारन्टर), पताः बी-6621, ज्वाला नगर, साबून गोदाम, मेरठ, उ0प्र0- 250002, मीहम्मद फरीद पुत्र मीहम्मद यूनुस (गारन्टर), पताः 254, सराय लाल दास, मेरठ, उ0प्र0- 250002	सोम दत्त सिटी कॉलोनी, ग्राम- सराय काजी, गढ़ रोड, मेरठ, 30प्र0। माप क्षेत्रफल 102.19 वर्ग मीटर। सम्पत्ति स्वामी श्रीमती विनिता पत्नी श्री विकास कुमार शर्मा एवं श्री विकास कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री सत्य प्रकाश शर्मा। विक्रेय विलेख के अनुसार सीमाएँ:- पूर्वः युनिट/फ्लैट नं0 ए-111, पश्चिमः युनिट/फ्लैट नं0 ए-109,	विनांक 09.02.2022 को समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया गया (बी) 12.05.2022	21,07,402.29 + व्याज दिनांक 01.01.2022 से + कानूनी एवं अन्य
f	देनांक—14.05.2022 स्थानः मेरठ		प्राधिकृत अधिकारी	पंजाब नैशनल बँक

तिथि : 15/05/2022 स्थान : दिल्ली

अधिकृत प्राधिकारी : चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड